



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2019/माघ 8, 1940

No. 365]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2019/MAGHA 8, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

का.आ. 478(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35(1)(ii) के अंतर्गत अनुमोदन के लिए मैसर्स जुबली मिशन हास्पिटल ट्रस्ट, श्रीस्सुर, केरल, (पैन: AAAAJ1080A) दिनांक 20.07.2018 के आवेदन पर विचार करते हुए, जहां 'जुबली सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च' को 'विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान' की श्रेणी में इसके तत्वावधान के अंतर्गत अनुमोदन मांगा गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'जुबली मिशन हास्पिटल ट्रस्ट' तत्वावधान के अंतर्गत 'जुबली सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च (जेसीएमआर)' को निर्धारण वर्ष 2019-20 और इससे आगे की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्यों से जुड़े "विश्वविद्यालय, कॉलेज अथवा अन्य संस्थान" की श्रेणी में अनुमोदित किया जाता है, नामतः:-

- (i) जेसीएमआर को प्रदत्त राशि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाएगी;
- (ii) जेसीएमआर अनुसंधान कार्यों को अपने संकाय सदस्य या नामांकित विद्यार्थियों के माध्यम से करेगा;
- (iii) जेसीएमआर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग लेखा बहियां रखेगा जिनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, ऐसी खाता बहियों की उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण, में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं

हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

(iv) जेसीएमआर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा, ऐसे दान का उपयोग केवल मूलभूत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा और उपयुक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा;

(v) जेसीएमआर धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को निम्नलिखित को समाहित करते हुए विवरणी प्रस्तुत करेगा-

- पूर्व वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य पर विस्तृत नोट;
- वर्ष के दौरान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित अनुसंधान कार्यों का सारांश;
- आगामी वर्ष के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम के लिए वित्तीय आवंटन।

2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-

(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अलग लेखा बहियां रखने में असफल रहता है; अथवा

(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(घ) अपने अनुसंधान कार्यकलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्यकलापों को वास्तविक नहीं पाया जाता है; अथवा

(ङ.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा उनका पालन नहीं करता है।

[अधिसूचना सं. 01/2019/फा. सं. 203/21/2018-आ.क.नि.-II]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2019

S.O. 478(E).—On consideration of application of M/s Jubilee Mission Hospital Trust, Thrissur, Kerala (PAN:- AAAAJ1080A) dated 20.07.2018 for approval under section 35(1)(ii) of Income Tax Act, 1961 ('said Act') wherein approval for 'Jubilee Centre for Medical Research' under its aegis has been sought in the category of 'University, College or other Institution', it is hereby notified for general information that 'Jubilee Centre for Medical Research' (JCMR) under the aegis of 'Jubilee Mission Hospital Trust' has been approved by the Central Government for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the said Act, read with Rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962 (said Rules), from Assessment year 2019-2020 onwards in the category of 'University, College or other Institution', engaged in research activities, subject to the following conditions, namely:-

- (i) The sums paid to JCMR shall be used to undertake scientific research;
- (ii) JCMR shall carry out scientific research through its faculty members or enrolled students;

- (iii) JCMR shall maintain separate books of accounts in respect of the sums received by it for scientific research, reflect therein the amounts used for carrying out research, get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub-section (2) of section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the said Act;
- (iv) JCMR shall maintain a separate statement of donations received and amounts applied for scientific research, such donations shall be used exclusively for core scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above.
- (v) JCMR shall, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139, furnish a statement to the Commissioner of Income-tax or Director of Income-tax containing-
- a detailed note on the research work undertaken by it during the previous year;
 - a summary of research articles published in national or international journals during the year;
 - any patent or other similar rights applied for or registered during the year;
 - programme of research projects to be undertaken during the forthcoming year and the financial allocation for such programme.
2. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization:-
- (a) fails to maintain separate books of accounts referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- (b) fails to furnish its audit report referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
- (c) fails to furnish its statement of the donations received and sums applied for scientific research referred to in sub-paragraph (iv) of paragraph 1; or
- (d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; or
- (e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the said Act read with rules 5C and 5E of the said Rules.

[Notification No. 01/2019/F. No. 203/21/2018/ITA-II]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.